

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 11, 1973/आश्विन 19, 1895
No. 233] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 1973/ASVINA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue and Insurance) PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11 October 1973

No. DRAWBACK/PN-31/73.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the tables published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

After sub-serial No. 2729 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rates of drawback
1	2	3
2730	All types of readymade garments made from textile fabrics but excluding garments made from (i) partially or wholly pure silk, (ii) cotton handloom and powerloom fabrics, and (iii) hosiery:—	
	(i) where proof of payment of duty on fabrics used in the manufacture of garments is produced.	1.5 % (One point five per cent only) of the export f. o. b. value plus 103.5% (One hundred three and point five per cent only) of the drawback rates fixed in respect of the fabrics falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626, as the case may be on the fabric content of the garments.

1

2

3

plus

103.5 % (One hundred three point five per cent only) of the actual central excise duty paid on the fabric content of the garments.

- (ii) Others 3.5% (Three point five per cent only) of the export f. o. b. value *plus* 103.5% (One hundred three point five per cent only) of the drawback rates fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626 as the case may be on the fabric content of garments.

Provided that where the exporter has availed of the procedure under rule 191A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944, the above rates of drawback shall not apply.

Explanation:—

- (1) In order to establish payment of Central Excise Duty on fabrics cleared under a particular Gate Pass (GP) which have been used in the manufacture of garments and correlate the same with the export goods for claiming drawback under (i) above, the exporters/manufacturers shall file statement I and II in the proforma annexed, with the Assistant Collector of Customs of the port of export, as well as with the Director (Drawback), Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance New Delhi. Any modification in the said statements shall be intimated by the manufacturer/exporter to the Assistant Collector of Customs of port of export and the Director (Drawback) well before the shipment takes place.
- (2) In those cases, where the manufacturers/exporters are unable to file statements and II referred to above, the claims shall be settled at the rates indicated against (ii) above.
- (3) The expression 'fabric content appearing at (i) and (ii) above refers only to the main/outer fabric contained in the garments and does not include the fabric utilised in interlining, collars, cuffs, pockets etc. and other embellishments.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

STATEMENT I

Statement I showing the receipt of duty paid fabric for manufacture of the goods exported under Contract No. _____ dated _____ and Shipping Bill No. _____ dated _____

Sl. No.	Description of fabrics (mention sort No.)	Name and address of the Mill supplying the fabrics	Gate Pass No. & date	Linear Meters	Width
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sq. Meters	No. of Sq. metres per kg.	Rate of duty	Total amount of duty	Composition of Fibre in warp and weft	Construction of Fabrics		
					Warp count	Weft count	Pick

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
-----	-----	-----	------	------	------	--	--

Whether fabrics are bleached, dyed, printed	Description of garments manufactured from this fabric (Give S. No. of statement II)	Remarks
---	---	---------

(13)	(14)	(15)
------	------	------

NOTE :—The particulars in the above statement should pertain only the main fabric used in export garments and only in respect of those receipts which are actually used in the export goods covered by the Shipping bill mentioned above. The particulars in respect of fabrics used for pocket lining etc. need not be shown.

STATEMENT II

Sr. No.	Description of readymade garments	Code No. of garments mentioned in Col. 2	S. No. of statement I showing the fabrics from which garments are made	Remarks
---------	-----------------------------------	--	--	---------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बोसा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1973

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 31/73.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में भी प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2729 तथा उससे संशोधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित उप-क्रम सं० तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
2730	<p>सूती फैब्रिक्स से विनिर्मित सभी किस्मों की सिली-मिलाई पोशाकों परन्तु जिन में</p> <p>(i) आंशिक अथवा पूर्णतः शुद्ध रेशम,</p> <p>(ii) हाथ करघा तथा विद्युत् करघा से सूती फैब्रिक्स से निर्मित पोशाक तथा</p> <p>(iii) हौजरी शामिल नहीं हैं।</p> <p>(I) जब पोशाकों के निर्माण में इस्तेमाल की गई फैब्रिक्स पर शुल्क की अदायगी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।</p>	<p>पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत) तथा पोशाकों की फैब्रिक्स अन्तर्वस्तु के अनुसार जैसा भी मामला हो, उप-क्रम सं० 2602, 2603, 2606: 2620 तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिक्स के संबंध में निश्चित की गई प्रति-अदायगी की दरों का 103.5 प्रतिशत (केवल एक से तीन दशमलव पांच प्रतिशत)</p>

1

2

3

तथा

(II) अन्य

पोशाकों की फैब्रिक अन्तर्वस्तु पर
 अदा किये गये वास्तविक
 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का
 103.5 प्रतिशत (केवल
 एक सौ तीन दशमलव पांच
 प्रतिशत) पोत पर्यन्त निः
 शुल्क निर्यात मूल्य का 3.5
 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव
 पांच प्रतिशत) तथा पोशाकों
 की फैब्रिक अन्तर्वस्तु के अनुसार
 जैसा भी मामला हो, उपक्रम
 सं० 2602, 2603, 2606,
 2620 और 2626 के अन्त-
 र्गत आनेवाली फैब्रिक के
 संबंध में निश्चित की गई
 प्रतिअदायगी की दरों का
 103.5 प्रतिशत (केवल एक
 सौ तीन दशमलव पांच प्रति-
 शत) ।

परन्तु जब निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 191-ए अथवा 191-बी के अधीन वर्णित कार्याविधि का लाभ उठाया है तो प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दरें लागू नहीं होंगी ।

स्पष्टीकरण :—

- (1) किसी विशेष गेट पास (जी० पो०) के अन्तर्गत निकासी किये गये ऐसे फैब्रिक्स पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी प्रमाणित करने के लिए, जिनका इस्तेमाल पोशाकों के निर्माण में किया गया है तथा उपर्युक्त (1) के अधीन प्रतिअदायगी का दावा करने के लिए उन के साथ निर्यात किए गये माल का संबंध स्थापित करने के निमित्त निर्यातकर्ता/निर्माता/निर्यात के पत्तन के सहायक-समाहर्ता (सीमा-शुल्क) तथा निदेशक (प्रतिअदायगी), वित्त मंत्रालय (राजस्व और सीमा विभाग), नई दिल्ली के पास अनुबद्ध प्रफार्म I और II में विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा । उक्त विवरणों में किसी भी संशोधन की सूचना निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा माल के लदान से पूर्व निर्यात के पत्तन के सहायक समाहर्ता (सीमाशुल्क) तथा निदेशक (प्रतिअदायगी) को भेज दी जायगी ।
- (2) जिन मामलों में निर्माता/निर्यातकर्ता उपरिनिर्दिष्ट I और II विवरण-पत्र दायर नहीं कर पाते हैं, उन दावों का फैसला उपर्युक्त (1) के सम्मुख निर्दिष्ट दरों पर किया जायगा ।

(3) उपर्युक्त (i) और (ii) में आने वाली अभिव्यक्ति “फैब्रिक अन्तर्वस्तु” का संदर्भ पोशाक में लगे मुख्य/बाह्य फैब्रिक से है तथा उम में भीतरी अस्तरों, कालरों, कफो, जेबों आदि तथा अन्य अलंकरणों में प्रयुक्त फैब्रिक शामिल नहीं है ।

इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने पर उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निश्चित की गई सभी ब्राण्ड दरें समाप्त समझी जायेंगी ।

विवरण-पत्र I

संविदा सं० _____ दिनांक _____ और शिपिंग बिल सं० _____ दिनांक _____ के अन्तर्गत निर्यात किये गये माल के निर्माण के लिए शुल्क भदा किये गये फैब्रिक का प्राप्ति का विवरण-पत्र ।

क्रम० सं०	फैब्रिक का विवरण (किस्म सं० का उल्लेख) कीजिये	कारखाने का नाम तथा पता, जो फैब्रिक सप्लाई करते हैं	गेट-पास सं०	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई
-----------	---	---	-------------	--------------------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

वर्ग- मीटर	प्रति-किलोग्राम वर्ग-मीटर सं०	शुल्क-दर कुल राशि	शुल्क की राशि	ताना तथा बाना में तन्तु की संरचना ताना बाना	फैब्रिक की रचना ताना बाना रीड पिक्स अंटी अंटी
---------------	----------------------------------	----------------------	------------------	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-----	-----	-----	------	------	------

क्या फैब्रिक विरंजित, रंजित, छपे हुए हैं	इस फैब्रिक से निमित्त पोशाकों का विवरण (विवरण-पत्र II की क्र० सं० दीजिये)	विशेष
---	--	-------

(13)

(14)

(15)

टिप्पणी :— उपर्युक्त विवरण-पत्र में दिया गया विवरण निर्यात की जाने वाली पोशाकों में प्रयुक्त मुख्य फैब्रिक तथा केवल उन प्राप्तिओं के सम्बन्ध में होना चाहिये जिनका उपर्युक्त शिपिंग बिल में निर्दिष्ट निर्यात किये गये माल में वास्तव में उपयोग किया गया हो । जेबों के अन्तर आदि के लिए प्रयुक्त फैब्रिक के सम्बन्ध में विवरणों के उल्लेख किया है ।

विवरण-पत्र II

क्र० सं०	तैयार शुदा माल	स्तम्भ (2) में	विवरण पत्र I की	
	पोशाकों का	उल्लिखित पोशाकों	क्र० सं० जिसमें	विशेष
	विवरण	की कोड सं०	उस फैब्रिक का	
			उल्लेख हों जिस	
			से पोशाकें बनाई	
			जाती हैं ।	

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिभ्रदापगी)

